

NJ-1215

B.Com. (Part - III) Examination,

Mar.-Apr., 2023

Compulsory Group - II

Paper : III

INDIRECT TAXES WITH GST

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 75

Minimum Pass Marks : 25

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Answer all questions. All questions carry equal marks.

इकाई-I / UNIT-I

Q. 1. एक आयातक ने एक मशीन आयात की जिसका बीजक मूल्य 16,000 डॉलर था। निम्न सूचना से सीमा शुल्क के लिए मशीन का शुल्क योग्य मूल्य बताइए :

(i) पैकिंग व्यय 800 डॉलर

(ii) हवाई जहाज का भाड़ा 4,800 डॉलर

NJ-1215

P.T.O.

(2)

- (iii) बीमा प्रीमियम 1050 डॉलर
- (iv) भारतीय हवाई अड्डे से गोदाम तक लाने का परिवहन व्यय 8,000 ₹
- (v) निर्यातक के दलाल को सौदा करवाने का कमीशन 190 डॉलर।

बोर्ड द्वारा घोषित विनिमय दर - 1 डॉलर = 60 ₹

An importer has imported a machine at invoice price of 16,000 dollars. From the following informations, compute the assessable value of the machine for custom duty :

- (i) Packing charges 800 dollars
- (ii) Transport charges by air 4800 dollars
- (iii) Insurance premium 1050 dollars
- (iv) Transportation charges from Indian airport to godown 8,000 ₹

NJ-1215

(3)

- (v) Commission paid to the broker of exporter who arranged the deal 190 dollars
- Exchange rate notified by the board 1 dollar = 60 ₹.

अथवा / OR

सीमा शुल्क से क्या आशय है ? इसके इतिहास को बताते हुए उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालिए।

What do you mean by custom duty ? Highlight its objective and importance with briefing history.

इकाई-II / UNIT-II

- Q. 2. छत्तीसगढ़ आबकारी शुल्क अधिनियम पर संक्षिप्त टिप्पणी करें एवं अधिनियम में निर्धारित नवीन शुल्क का वर्णन करें।
- Write short notes on Chhattisgarh Excise Act and explain duties and fees under new provision in this act.

NJ-1215

P.T.O.

(4)

अथवा / OR

बस्तर के भण्डारगृह से सितम्बर 2021 को निम्नलिखित मादक पदार्थ निर्गमित किए गए हैं :

- | | |
|--|------------------|
| (1) देशी मदिरा सादी | 2,950 प्रूफ लीटर |
| (2) देशी मदिरा मसालेदार | 5,050 प्रूफ लीटर |
| (3) मिलिट्री संगठन को हिस्की | 2,400 प्रूफ लीटर |
| (4) भांग घोटा की दुकान के लिए
लाइसेंसधारी को भांग | 400 किलोग्राम |
| (5) लाइसेंसधारी व्यापारी को वाइन
(1,750 ₹ प्रति प्रूफ लीटर) | 8,000 प्रूफ लीटर |
| (6) व्यापारी को भांग उपभोक्ता के लिए | 1,000 किलोग्राम |
| (7) अधिकृत मिलिट्री कैंटीन को बीयर | 1,260 बल्क ली0 |
| (8) बीयर बार को बीयर | 5,000 बल्क ली0 |
| (9) भारत तिब्बत सीमा पुलिस कैंटीन
को बीयर | 28,200 बल्क ली0 |
| (10) ठेकेदारों को विदेशी शराब
(मूल्य 1,900 ₹ प्रति केस) | 2,300 प्रूफ लीटर |

(5)

संगृहीत आबकारी शुल्क की गणना छत्तीसगढ़ आबकारी शुल्क अधिनियम के नवीन निर्धारित दरों से कीजिए।

The following intoxicants were issued from Bastar warehouse in the month of September 2021. You are required to compute the amount of excise duty payable under C.G. Excise Act of new rate.

- | | |
|---|-------------------|
| (1) Plain country liquor | 2,950 proof litre |
| (2) Spiced country liquor | 5,050 proof litre |
| (3) Whisky to military org. | 2,400 proof litre |
| (4) Bhang to licence holder
for shop of Bhang Ghota | 400 kg |
| (5) Wine to a licence holder
(1,750 ₹ per proof litre) | 8,000 proof litre |
| (6) Bhang to a trader for
consumers | 1,000 kg |

NJ-1215

NJ-1215

P.T.O.

(6)

- (7) Beer to authorised military canteen 1,260 Bulk litre
- (8) Beer to beer bar 5,000 Bulk litre
- (9) Beer to Indo-Tibet border police 28,200 Bulk litre
- (10) Foreign liquor to contractors (1,900 ₹ per case) 2,300 proof litre

इकाई-III / UNIT-III

- Q. 3. माल एवं सेवाकर क्या है ? क्या यह पूर्व के कर प्रणाली से बहुत अच्छा है ? परीक्षण कीजिए।
What is GST ? Is GST better than before tax system ? Test it.

अथवा / OR

- माल एवं सेवाकर की आवश्यकता क्यों पड़ी ? अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में इसकी संरचना एवं प्रकारों को समझाइए।

NJ-1215

(7)

Why need GST ? Explain its structure and types context on its concept.

इकाई-IV / UNIT-IV

- Q. 4. "स्वीट लूक गारमेण्ट्स" एक कपड़े की दुकान है. उनकी पूर्ति का विवरण इस प्रकार है :

(1) कपड़ा	4,50,000 ₹
(2) रजाई एवं तकिया कवर	1,00,000 ₹
(3) रेडीमेड कपड़े (मुम्बई से क्रय)	60,000 ₹
(4) होजियरी (दिल्ली के पंजीकृत व्यापारी से क्रय 1,000 ₹ GST चुकाया)	30,000 ₹
(5) तौलिया एवं गमछे (विक्रय मूल्य 80 ₹ प्रति)	65,000 ₹
(6) पुस्तकें	40,000 ₹
(7) अभ्यास पुस्तकें	3,00,000 ₹

NJ-1215

P.T.O.

(8)

Sweet Look garments is a clothes shop, following are the particulars of supplies by the dealer :

(1) Cloth	4,50,000 ₹
(2) Rajai and pillow covers	1,00,000 ₹
(3) Readymade garments (from Mumbai)	60,000 ₹
(4) Hosiery (Purchased from registered dealer of Delhi GST paid 1,000 ₹)	30,000 ₹
(5) Towels and Gamachha (selling price 80 ₹ each)	65,000 ₹
(6) Books	40,000 ₹
(7) Exercise books	3,00,000 ₹

NJ-1215

(9)

Compute total and taxable supply of the trader.

Value of supply includes 5% GST.

अथवा / OR

पूर्ति से आपका क्या आशय है ? यह कैसे अन्तर करेंगे कि

किसी पूर्ति में माल की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति निहित है ?

What do you mean by supply? How do

distinguish whether a particular supply involve

supply of goods are supply of services ?

इकाई-V / UNIT-V

Q. 5. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है ? इनपुट टैक्स क्रेडिट की शर्तें

एवं ग्राह्यताएँ बताइए एवं पूँजीगत माल पर इनपुट टैक्स के

प्रभाव को बताइए।

NJ-1215

P.T.O.

(10)

What is input tax credit ? Explain the eligibility and conditions of input tax credit and show the impact of input tax credit on capital goods.

अथवा / OR

सुपर टाइल्स द्वारा निम्न शर्तों पर 5,00,000 टाइल्स की पूर्ति थोक वितरक को की गयी:

प्रति टाइल्स का व्यवहार मूल्य 18 ₹ प्रति टाइल्स:

(1) परिवहन व्यय	48,000 ₹
(2) पैकिंग	35,000 ₹
(3) डिजाइन व्यय	20,800 ₹

व्यापारिक बट्टा व्यवहार मूल्य पर 10%

पूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली जी.एस.टी. की दर 18% देय पर GST की गणना करें। टाइल्स निर्माण प्रयुक्त सीमेण्ट के मूल्य ₹ 25 लाख में 2,00,000 ₹ के GST

NJ-1215

(11)

शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ₹ 5 लाख मूल्य की गिट्टी एवं रेत प्रयुक्त हुई जिस पर कोई GST देय नहीं है।

टाइल्स निर्माण के दौरान 18,500 ₹ का GST चुकाया गया।

Super Tiles supplied 5,00,000 tiles to its wholesale dealers on following terms.

Transportation value of per tiles ₹ 18 :

(1) Transportation expenses	48,000 ₹
(2) Packing	35,000 ₹
(3) Design charges	20,800 ₹

Trade discount 10% on transaction value.

Cement used for manufacturing tiles worth ₹ 25 lakh included GST ₹ 2,00,000. Besides, concrete and sand ₹ 5 lakh were also used but no tax payable thereon. During the tiles productions

NJ-1215

P.T.O.

(12)

GST ₹ 18,500 has been paid to service providers for design and advertising. Compute the GST.

KK Govt. College Durgukondal